

**प्रेस विज्ञप्ति**

**जनपद बस्ती**

**दिनांक:-26.06.2021**

**चार पहिया वाहन चोरी करने वाले तीन अन्तर्राज्यीय शातिर चोरों को सरगना सहित, थाना पुरानी बस्ती, स्वाट टीम बस्ती, SOG संतकबीर नगर मय पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार कर, 05 अदद चार पहिया वाहन (03 पिकप, 01 बलेनो कार, 01 मारुति जेन कार) बरामद किया गया ।**

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम मे जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद बस्ती में अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर श्री आलोक प्रसाद के पर्यवेक्षण में प्रभारी थानाध्यक्ष श्री शशिभूषण पाण्डेय थाना पुरानी बस्ती स्वाट टीम बस्ती, SOG संतकबीर नगर मय पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2021 धारा 379, 411, 413 , 419, 420, 467, 468, 471 IPC से सम्बन्धित तीन अभियुक्तों को 05 अदद चार पहिया वाहन (03 पिकप, 01 बलेनो कार, 01 मारुति जेन कार) व रुपये 3,850/- नगद के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बस्ती रवाना किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-**

- 01.** युनूस पुत्र मंसूर अली निवासी विन्दुसार बुजुर्ग थाना मुफसिल जनपद सिवान (बिहार) उम्र 42 वर्ष ।
- 02.** रमेश कुमार शाह पुत्र बृजकिशोर शाह निवासी निर्मल टोला मोहम्मदपुर थाना बरौली जनपद गोपालगंज (बिहार) उम्र 40 वर्ष ।
- 03.** शौकत अली पुत्र असगर अली निवासी सैरयागंज थाना नगर जनपद मुजफ्फरपुर (बिहार) उम्र 40 वर्ष ।

**बरामदगी का विवरण:-**

- 1.** 05 अदद चार पहिया वाहन (03 पिकप, 01 बलेनो कार, 01 मारुति जेन कार) अनुमानित कीमत लगभग 50,00,000/- ।
- 2.** रुपये 3,850/- नगद ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 18.06.2021 को प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 झगरु प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम साउंघाट थाना मुण्डेरवां जनपद बस्ती द्वारा थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 17.06.2021 को मै अपनी पिकप गाड़ी नं0 UP 58 T 5107 को भानपुर से खाली करके आ रहा था और अमौली पेट्रोल पम्प के पास जय अम्बे फार्म के सामने समय करीब 21:00 बजे खड़ा करके अपने घर साउंघाट चला गया और सुबह समय करीब 07:00 बजे घर से वापस गाड़ी के पास गया तो गाड़ी गायब थी, जिसकी हम लोगों ने काफी खोजबीन की लेकिन गाड़ी नहीं मिली जिसे अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया है ।

**जिसके सम्बन्ध में थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 180/2021 धारा 379 IPC पंजीकृत किया गया ।**

## पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक 17.06.2021 को हरैया तहसील से कुछ दूरी पर ही हरैया कस्बे से जैन मारुति कार गाड़ी संख्या UP 80 AE 3010 चोरी किये थे जिसे लेकर हम लोग अपना निजी काम कर रहे थे। गाड़ीयों की चोरी हम लोगों की टीम द्वारा की जाती है जिसमें विशाल यादव पुत्र बादशाह यादव, सचिन वर्मा उर्फ सोनू निवासीगण ग्राम गोपी पतियांव थाना हसनपुर जनपद सिवान (बिहार) द्वारा पहले रेकी की जाती है फिर दोनों मिलकर गाड़ी चोरी करके मुझे, रमेश कुमार शाह पुत्र बृजेश कुमार शाह, युनुस पुत्र मसूर अली व मनीष को चोरी की गाड़ीयों को बेचने के लिए भी जाता है। जो गाड़ी ठीक होती है उसके नं० बदल कर उसी के हिसाब से इंजन नं० व चेचिस नं० बदल कर उचित मूल्य पर बेच देते हैं और जो गाड़ी अच्छे स्थिति में नहीं होती है उसे कबाड़ी सौकत अली पुत्र असगर अली को सस्ते दामों में बेच देते हैं जिसके द्वारा उन गाड़ीयों को कबाड़ में कटिंग करके बेच दिया जाता है। दिनांक 17.06.2021 की रात में हड़िया फ्लाई ओवर के अमौली पेट्रोल पम्प के पास से चोरी की गाड़ी जिसका नम्बर बदल कर BR 29 GA 3452 लिखा गया तथा दिनांक 09.06.2021 की रात में हरैया कस्बे से चोरी की गाड़ी का नं० BR 06 GB 1275 बदल कर लिखा गया, दिनांक 30.04.2021 की रात में बाई पास रोड जनपद रायबरेली से चोरी की गाड़ी का नं० बदल कर BR 06 GB 1275 लिखा गया। मारुति बलेनो कार गाड़ी नं० BR 06 BU 2149 के बारे में बताया कि कब व कहाँ से चोरी की गयी के बारे में जानकारी नहीं है। दिनांक 23.04.2021 की रात्रि में हरैया कस्बे से हम लोगों द्वारा चोरी की गयी पिकप को बेच दिया गया है और आज दिनांक 26.06.2021 को आप लोगों द्वारा पकड़ लिये गये।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक श्री विकास यादव प्रभारी स्वाट टीम जनपद बस्ती।
2. निरीक्षक श्री अनिल कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम जनपद बस्ती।
3. प्रभारी थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती श्री शशिभूषण पाण्डेय जनपद बस्ती।
4. उ०नि० श्री विनोद यादव स्वाट टीम जनपद बस्ती।
5. उ०नि० श्री जितेन्द्र सिंह थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।
6. उ०नि० ऋषिदेव प्रसाद थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।
7. हे०का० इन्द्रजीत यादव, हे०का० अनुप कुमार राय, हे०का० विनोद यादव, का० मुनीर अहमद SOG टीम जनपद संतकबीर नगर।
8. हे०का० मनोज कुमार राय, हे०का० मनिन्द्र प्रताप चन्द्र, का० रविशंकर शाह, का० रवि प्रताप सिंह स्वाट टीम जनपद बस्ती।
9. हे०का० सुधाकर राय, हे०का० तरुण कुमार मिश्रा, का० जय प्रकाश पाण्डेय, का० नितिश सिंह थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।